

BARKER, *s.* भयकः.—(Reviler) आक्रोशकः.

BARKING, *s.* (Of dogs) भयणी, बुक्कने, रायणी, हत्ते.

BARKY, *a.* वाकः—की-ल्क, वाक्कलः—ली-र्लं, त्वचाद्यः—पी-र्म.

BARLERIA, *s.* (A flower) वाला, आर्लिंगल, कुरवकः, सहस्ररी, चुक्.

BARLEY, *s.* घट, घयकः, गौलियः—‘barley-meal’ घटघोदः; ‘barley-water’ उदमधः; ‘made of barley’ घटमधः—पी-र्म; ‘sown with barley’ घटः—घ्या-र्म.

BARLEY-BROTH, *s.* घटसुरू, घटनिमित्ते पानीय, घटरसः.

BARLEY-CORN, *s.* घट, तिर्यग्यवोदरै.

BARLEY-MOW, *s.* लूपयमस्कृहास्यान, यथे लूपे शति तत्सच्यनस्याने.

BARLEY-SUGAR, *s.* घटसक्षिप्त इक्षुसारः, मालिकश्चिकरा, गुलालू.

BARM, *s.* सुरभादः, मनमधः, कारोबरः, काटोमधः, अभिमधः.

BARN, *s.* बुड्डुः, श्वस्यादेव, भास्यागार, धाम्यागार, धाम्यकोडः, धाम्यकुहास्याने.

BARNACLE, *s.* (A kind of shell-fish) नौकाकाइनः श्वस्कायिदोः—(An instrument to hold a horse by the nose) पाणिपिण्डो येन तुर्ज्ञो मुद्रेदेशे प्रियमाणी, चिकित्सिक्तेन चिकित्सितुं शक्तते.—(A kind of bird) इसकातीयः परिव्येद.

BAROMETER, *s.* आकाशोत्तनयन्ते, आकाशप्रिमाणार्थं पारदपूरिता काचनाली.

BARON, *s.* क्रमगतानां कुलीनपदानां मध्ये घटप्रेदेत, अधिपतिः *m.*, स्वामी *m.* (न).—(Baron of beef) गोपूर्ष, उभयार्थीयपत्ररुक्ते गोलांसे.

BARONESS, *s.* वस्त्रमाणकुलीनपदान्तरस्य पुहस्यस्य पाली OR भाष्या.

BARONET, *s.* क्रमगतानां कुलीनपदानां मध्ये घटप्रेत यस्य सः.

BARONIAL, *a.* पूर्वोक्तुलोनपदसन्त्वनीयः—निम्नी-र्चि (न).

BARONY, *s.* पूर्वोक्तुलोनपदसन्त्वनीयम् आधिपत्ये वा स्वाम्ये.

BARRACK, *s.* सेन्यागार, सेन्यालू, अपुद्धरमये सेन्यनिवासस्याने, सेन्यावासः.

To BARRACK, *v. a.* सेन्यालू, सेन्यागारे पृष्ठ पृष्ठ स्था in caus. (स्थापति-र्चि), OR वस्त्र in caus. (वासयति-र्चि).

BARRED, *p.p.* प्रिष्ठः—द्वा-र्हू. प्रतिष्ठः—द्वा-र्हू. वापातः—ता-र्न.

BARREL, *s.* (A small cask) दीपोडाकार काटनिमित्ते पांव OR भावैः.—(A cylinder, as of a gun) नाहि—इ-र्फ, नाली-र्ला.

To BARREL, *v. a.* (To put in a barrel) पूर्वोक्तपात्रे निविश् in caus. (येवापति-र्चि).

BARREN, *a.* (Not prolific) बन्धः—न्या-र्व्यं, असुरी-हिनी-र्ति (न), चाप्रसी विनी-र्चि (न), स्नानापतिः—ता-र्न.—Unfruitful निविशः—ला-र्लं, चापलः—ला-र्लं, चावकेही—शिनी-र्चि (न), चुम्बः—ज्ञा-र्व्यं, —(Useless) व्ययः—र्षी-र्व्यं, अर्थवचः—का-र्वी, भोयः—घा-र्वी.—(Empty) शून्यः—व्या-र्व्यं, रिक्त-का-र्वी; ‘barren woman, बन्धा, असूरी; a barren soil,’ महस्यलू OR—ली.

BARRENESS, *s.* बन्धाता, निष्कलाता, वैयर्यं, शुक्षता, शून्यता.—(In a female) बन्धात्वं.

BARRICADE OR BARRICADO, *s.* प्राचीर, प्राकारः, घपः—प्रै, चवरोपकः, घपावदोप.

To BARRICADE OR BARRICADO, *v. a.* रुधि (c. 7. रुध्नि, रोदु), प्रतिरूप, संरूप; प्रतिबन्ध (c. 9. चवाति-र्चु); प्राचीरेण पथं चवरूप.

BARRIER, *s.* (A barricade) प्राचीरः, प्राचीर, परिक्षेत, वापः.—(An obstacle) विपः, प्राचीरम्, चवरोपकः, प्रतिरूपः, प्रतिबन्धः, सवाधनं, प्रत्याहः.—(A boundary) दीमा, वर्णनं, परिसीमा.

BARRISTER, *s.* उत्तरदाती *m.* (न), परार्थं वादी *m.* (न), प्रतिवादी *m.*

(न), परार्थं वादानुवादकता *m.* (न), भवती *m.* (न), मन्त्रकृत, अपस्था-निष्पक्षः, अवहारप्रतिदितः, मृतिशास्त्रदः, धीर्षितः.

BARROW, *s.* (A kind of vehicle) इलम्प्रावालुते वाहने or याने.—(A hog) शूकरः.—(A mound) मृतिकारात्रिः *f.*, उत्तरमृतागः.

To BARTER, *v. n.* (To trade) भास्यप्रतिनिमय वाणिज्यं कृ.

To BARTER, *v. a.* (To exchange one article for another) निमये (c. 1. यस्ते-मात्रु), निमये, विनिमय, भास्यप्रतिनिमय युक्त, परिच्छुत् in caus. (चैत्रयी-र्चितु), भावैः प्रति भावैः दा (c. 3. दहति, दहुः); ‘capable of being bartered,’ परिवैज्ञानियः—या-र्वी.

BARTER, *s.* भास्यप्रतिनिमय, निमय, निमय, विनिमय, वैनिमय, प्रतिदान, परिदान, परिवृत्तिः *f.*, परीक्षेत, परिवैज्ञ, निमय, अविहारः; ‘any thing obtained by barter,’ आविनिमयकः.—(Rule of barter in arithmetic) भास्यप्रतिभावकः.

BARTON, *s.* (A poultry-yard) यानकुक्कुदारिद्वयार्थं चूपृतः.

BASEALT, *s.* लोहसदुर्ग जितिदुर्गः कृष्णावर्णः प्रस्तरप्रविशेषः.

BASEALTIK, पृष्ठोप्त्तरसदसन्त्वनीयः—निम्नी-र्च्य (न).

BASE, *a.* (Mean, vile) नीचः—व्या-र्व्यं, अधः—मा-र्न, निकृष्टः—द्वा-र्व्यं, चापकृष्टः—द्वा-र्व्यं, खलन्—ला-र्लं, चानामी—र्षी-र्व्यं, निर्मुखः—शा-र्व्यं, दृष्टः—द्वा-र्व्यं, तुच्छः—ज्ञा-र्व्यं, निधनः—व्या-र्व्यं, कदम्बः—र्षी-र्व्यं, हीनः—ना-र्व्यं, कुशितः—ना-र्व्यं, ‘a base man,’ कापुष्यः—(Of mean parentage) अकुलः—ला-र्लं, अकुलीयः—ना-र्व्यं.—(Of mean spirit) कृपयः—व्या-र्व्यं, दुर्भावः—व्या-र्व्यं; ‘base metal,’ कृप्तः.

BASE OR BASS, *a.* (As sound) गम्भीरः—रा-रै, घोरः—रा-रै.—(A base sound) चन्द्रः.

BASE, *s.* (The bottom of any thing) च्छेमाणः, मूर्तुः, तलः, उपहमः, उपानः.—(In geometry) मूर्ता *m.* (न), भूमिः *f.*—(Base of a pillar) उपहमः, स्थाप्यस्य च्छेमाणः.—(Base of a tree) तहत्तलः.—(Foundation of a house) विज्ञिमूर्तुः, पोटः.

BASE-BORN, *a.* विहानीयोनः—ति—नी, विचातः—ता-र्न, कलुप्योनिजः—ज्ञा-र्व्यं, हीनजाताः—ति—ति.—(Bastard) जातः, कुदः.

BASE-MINDED, *a.* दुष्कृतिः—ति—तुच्छेताः—ना: ना: (न). (३).

BASED, *p.p.* (Founded) मूर्तः—ला-र्लं in comp.; ‘based on knowledge,’ ज्ञानमूर्तः—ला-र्लं.

BASELESS, *a.* निर्मुखः—ला-र्लं, अकुलः—ला-र्लं.

BASELY, *adv.* अपकृष्ट, निर्मुख, नीचतावा, संदैयं, दुष्कृतनवत्, अधमप्रकारेण, कापिशेषेण.

BASEMENT, *s.* (Foundation of a house) गृहस्य भित्तिमूर्तुः, वालू *n.*, पोटः.

BASENESS, *s.* (Meanness) नीचाः, दुष्टाः, निकृष्टाः, दैर्य, कदम्बीयं, जनायेता, खलता.—(Of birth) हीनजातिता, वैचार्यं.—(Of Sound) गम्भीरीयं.—(Of metal) चन्द्र, कृपयाः.

BASHAW, *s.* तक्कीयदेशे व्यापारित्विषेषः, सेनानीः *m.*, सेनापतिः *m.*, अधिपतिः *m.*

BASHFUL, *a.* हृदयान्—मती—मत (न), लुचावान्—वती—वत (त), चवप्रियः—र्षा-र्षा, चवितः—ता-र्न, चपायुकः—का-र्वी, ग्रीदितः—ता-र्न, शालीनः—ना-र्न.—(Timorous) भीहः—हा—हृ.

BASHFULLY, *adv.* लुचावा, सवर्ण, सवर्णीदंतेः—(Timorous!) सवकितं, सभयं.

BASHFULNESS, *s.* हीः *f.*, लुचा, चपः—व्या, चवप्रया, द्वीपा, द्वीपने, शालीनतं, चन्द्रार्थः—(Timidity) भीहता.

BASIL, *s.* (A plant) तुलसी, मधुवकः, समीदाः, प्रस्पृयुषः, फलिनक्तः, पर्णीसाः, जमीरै, कठिङ्गः, कुटेकः, चर्जनः.

BASILICA, *s.* (The middle vein of the arm) बाहुमध्यस्था वृहत्वादः *f.*

BASILICK, *s.* वृहत्वाज्ञाला.